

यूपी बोर्ड हाईस्कूल परीक्षा 2022

विषय – सामाजिक विज्ञान (10th)

केवल प्रश्नपत्र

समय: 3 घण्टे 15 मिनट.

पूर्णांक : 70

नोट: प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न-पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं।

• निर्देश :

- (i) यह प्रश्न-पत्र दो खण्डों 'क' एवं 'ख' में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खण्ड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारम्भ किया जाए।
- (ii) प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं।
- (iii) प्रश्न-पत्र में चार प्रकार के प्रश्न हैं— बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय, जिनके सम्बन्ध में निर्देश उनके आरम्भ में दिये गये हैं।

(iv) 'क' तथा 'ख' खण्डों हेतु दिये गये मानचित्रों को उत्तर-पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

खण्ड - क

बहुविकल्पीय प्रश्न

• निर्देश: निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए।

1. 'यंग इटली सोसाइटी' का संस्थापक कौन था? 1

- (क) गैरीबाल्डी (ख) बिस्मार्क
(ग) काबूर (घ) मेजिनी

2. सविनय अवज्ञा आन्दोलन कब चलाया गया? 1

- (क) 1920 (ख) 1927
(ग) 1930 (घ) 1935

3. महामन्दी का प्रारम्भ किस वर्ष हुआ? 1

- (क) 1919 ई० (ख) 1924 ई०
(ग) 1929 ई० (घ) 1934 ई०

5

4. जूरिच संधि कब हुई ? 1

- (क) 1859 (ख) 1856
(ग) 1960 (घ) 1858

5. जलियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ था ? 1

- (क) 30 अप्रैल 1919 (ख) 13 अप्रैल 2019
(ग) 13 अप्रैल 1919 (घ) 23 अप्रैल 1819

6. मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1

- (क) 10 सितम्बर (ख) 10 दिसम्बर
(ग) 13 दिसम्बर (घ) 10 मार्च

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

7. लोकतंत्र की किन्हीं दो चुनौतियों का उल्लेख कीजिए । 2

8. लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है। इसके दो कारण बताइए। 2

9. ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? दो कारण बताइए। 2

लघु उत्तरीय प्रश्न

10. जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? 3

अथवा

भारतीय लोकतंत्र की तीन विशेषताएँ बताइए।

11. सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते दो उदाहरण भी दीजिए। 3

अथवा

दबाव समूह और राजनीतिक दल में दो अन्तर बताइए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

12. विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया? इसमें तकनीकी का क्या योगदान है? 6

अथवा

भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं चार आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए।

13. 'लोकतंत्र' को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? 6

अथवा

संघवाद क्या है? भारत के संघीय ढाँचे की चार विशेषताएँ बताइए।

मानचित्र सम्बन्धी प्रश्न

14. दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर उन दो राज्यों को पहचानकर उन राज्यों के नाम लिखिए, जहाँ निम्नलिखित घटनाएँ हुई-

- | | |
|------------------------------|---|
| (क) चम्पारन (बिहार) | 1 |
| (ख) खेड़ा (गुजरात) | 1 |
| (ग) अहमदाबाद (गुजरात) | 1 |
| (घ) अमृतसर (पंजाब) | 1 |
| (ङ) चौरी-चौरा (उत्तर प्रदेश) | 1 |

कच्छ
सुतर

खण्ड - ख

बहुविकल्पीय प्रश्न

निर्देश : निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए।

15. भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1

(क) 1982 (ख) 1984

(ग) 1985 (घ) 1986

16. निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? 1

(क) संचार (ख) शिक्षा

(ग) वन (घ) उत्तराधिकार

17. सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू०टी०ओ०) किसके द्वारा शुरू हुआ? 1

(क) विकसित देश (ख) विकासशील देश

(ग) अल्प विकसित देश (घ) निर्धन देश

18. निम्नलिखित में से कौन-कौन सी एक रेशेदार फसल है 1

(क) जूट (ख) कॉफी

(ग) जौ (घ) रबर

19. सुन्दर वन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है - 1

(क) असम (ख) उड़ीसा

(ग) पश्चिमी बंगाल (घ) मध्य प्रदेश

20. निम्नलिखित में उत्पादन का साधन है 1

(क) पूँजी (ख) लाभ

(ग) सेवाएँ (घ) कर

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

21. तीन राज्यों के नाम बताएँ जहाँ काली मृदा पायी जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन-सी फसल उगाई जाती है?

2

महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश

22. वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इसका कोई एक लाभ बताइए।

2

कपाल

23. रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों?

2

लघु उत्तरीय प्रश्न

24. भारत में घटते जल स्तर के मुख्य कारण बताइए। 3

अथवा

चावल की उपज के लिए आवश्यक तीन भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए।

25. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 (MNREGA, 2005) के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।

3

most

अथवा

विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

26. मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए।

6

अथवा

ऊर्जा के गैर परम्परागत चार स्रोतों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

27. उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं? किन्हीं चार प्रकार के प्रदूषण का उल्लेख कीजिए।

6

अथवा

ऐसे कारकों की चर्चा कीजिए, जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है।

मानचित्र कार्य

निर्देश : दिये गये भारत के रेखा मानचित्र में निम्न लिखित को दर्शाइए

(1) भाखड़ा नांगल

1

(2) टेहरी

1

(3) सरदार सरोवर

1

(4) हीराकुंड

1

(5) नागार्जुन सागर

1

सबसे उत्तर में

most

NEP 2020 Syllabus

12 Apr 13

Pattern

NCE 1144

DMR

